



रामाज्ञा स्कूल नोएडा
V / सिल्वर जोन / 2018-19
हिंदी ओलंपियाड अभ्यास-पत्रक

संकल्पना

सही विकल्प पर सही (✓) का चिह्न लगाइए -

प्रश्न 1. लिखित भाषा में मन के विचारों का आदान -प्रदान किस प्रकार किया जाता है ?

- | | |
|---------------|--------------|
| (क) बोलकर | (ख) चिल्लाकर |
| (ग) इशारों से | (घ) लिखकर |

प्रश्न 2. 'र' के प्रयोग वाले सही शब्द का चयन कीजिए -

- | | |
|-----------|---------|
| (क) सूर्य | (ख) सुय |
| (ग) सूय | (घ) रूय |

प्रश्न 3. दिए गए शब्दों में से निरर्थक शब्द है -

- | | |
|----------|---------|
| (क) घर | (ख) बाग |
| (ग) सड़क | (घ) हचक |

प्रश्न 4 हमें _____ से बचना चाहिए ।

- | | |
|-----------|-----------|
| (क) बुरा | (ख) बुरे |
| (ग) बुराई | (घ) बुरों |

प्रश्न 5. कोयल का पुल्लिंग होगा -

- | | |
|-------------|-----------------------|
| (क) कोयला | (ख) कोयली |
| (ग) नर कोयल | (घ) इनमें से कोई नहीं |

अनुप्रयोग

उचित विकल्प का चयन कीजिए ।

प्रश्न 6. दिए गए शब्दों में से सार्थक शब्द है -

- | | |
|----------|----------|
| (क) वाना | (ख) वाय |
| (ग) चाबी | (घ) वानी |

प्रश्न 7. हमें भलाई का काम करना चाहिए । इस वाक्य में भलाई का संज्ञा -भेद है -

- | | |
|-----------------|----------------|
| (क) जातिवाचक | (ख) भाववाचक |
| (ग) व्यक्तिवाचक | (घ) द्रव्यवाचक |

प्रश्न 8. वह राधा का भाई है । इस वाक्य में करक का भेद बताइए -

- | | |
|---------------|----------------|
| (क) कारण कारक | (ख) संबंध कारक |
| (ग) कर्म कारक | (घ) अपादान करक |

प्रश्न 9. दूध में कुछ गिर गया है । इस वाक्य में सर्वनाम का भेद बताइए-

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| (क) अनिश्चयवाचक सर्वनाम | (ख) निश्चयवाचक सर्वनाम |
| (ग) प्रश्नवाचक सर्वनाम | (घ) सम्बन्धवाचक सर्वनाम |

प्रश्न 10. भिखारी को थोडा खाना दे दो । इस वाक्य में विशेषण का भेद बताइए ।

- (क) परिमाण वाचक विशेषण (ख) संख्यावाचक विशेषण
(ग) गुणवाचक विशेषण (घ) संकेतवाचक विशेषण

मूल्यपरक प्रश्न

उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान भरिए ।

प्रश्न 11. चिड़िया उड़ रही है । इस वाक्य में _____ है ।

- (क) अकर्मक क्रिया (ख) सकर्मक क्रिया
(ग) प्रेरणार्थक क्रिया (घ) सरल क्रिया

प्रश्न 12. पिताजी मेरे लिए खिलौना लाएंगे । यह वाक्य _____ का है ।

- (क) भूतकाल (ख) वर्तमान काल
(ग) भविष्यत् काल (घ) सामान्य भूतकाल

प्रश्न 13. सोनम जोर-जोर से हँस रही है । इस वाक्य में क्रिया -विशेषण का भेद बताइए ।

- (क) कालवाचक क्रिया -विशेषण (ख) स्थानवाचक क्रिया -विशेषण
(ग) रीतिवाचक क्रिया -विशेषण (घ) परिमाणवाचक क्रिया -विशेषण

प्रश्न 14. बच्चे इसलिए स्कूल जा रहे हैं ताकि वे वहाँ पढाई कर सकें । रचना की दृष्टि से वाक्य का भेद बताइए

- (क) सरल वाक्य (ख) मिश्र वाक्य
(ग) संयुक्त वाक्य (घ) आज्ञार्थक वाक्य

उच्च स्तरीय प्रश्न

प्रश्न 15. चार किलो चीनी ले आओ । विशेषण का भेद बताइए -

- (क) संख्यावाचक विशेषण (ख) परिमाणवाचक विशेषण
(ग) गुणवाचक विशेषण (घ) संकेतवाचक विशेषण

प्रश्न 16. उस सभा में अनेक _____ थीं ।

- (क) महिला (ख) महिलाओं
(ग) महिलागण (घ) महिलाएँ

प्रश्न 17. बंदरों ने सारी _____ फेंक दीं ।

- (क) टोपियाँ (ख) टोपियों
(ग) टोपिँ (घ) टोपी

प्रश्न 18. शुद्ध वाक्य चुनिए ।

- (क) रानी का प्राण निकल गए (ख) रानी के प्राण निकल गए
(ग) रानी का प्राण निकल गया (घ) रानी को प्राण निकल गया

प्रश्न 19. यश शब्द का विलोम बताइए -

- (क) अपयश (ख) अयश
(ग) निर्यश (घ) उपयश

प्रश्न 20- आग का समानार्थक शब्द होगा -

(क) ज्वाला

(ग) नीर

(ख) अनिल

(घ) पीयूष